

February 29, 2024

The Secretary, Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalai Street, Mumbai - 400 001. Maharashtra, India.

The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Maharashtra, India.

Symbol: TRF

Dear Madam, Sir(s),

Scrip Code: **505854**

Newspaper Advertisement – Postal Ballot Notice of TRF Limited

Please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Postal Ballot Notice of TRF Limited published in the following newspapers:

- 1. Financial Express (English)
- 2. Hindustaan (Hindi)

This is for your information and records.

Yours faithfully, **TRF LIMITED**

Prasun BanerjeeCompany Secretary

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

FROM THE FRONT PAGE

Small, mid-caps tank over regulatory scare

THE MID-CAP INDEX closed at 39,019.19,down 724 points or 1.82%, whereas the small-cap index closed at 44,998.14, down 890 points or 1.94.% According to Dhirendra Kumar, CEO, Value Research, the markets regulator keeps on sensitising the mutual fund industry on these issues occasionally to ensure that there isn't overexcitement in the market.

"That's good — it's part of the regulator's job – but it's not advice that fund investors need to act upon urgently. Those who are speculating in smaller stocks are equity traders. However, mutual fund investors are a different lot – they are mostly going through the systematic investment plan (SIP) route. They have all the advantages of cost averaging and diversification that mutual funds provide. I'm sure they'll be fine."

However, market players are worried that moderating inflows into schemes would reduce the fresh inflows, thereby limiting the price growth of these stocks.

THE ENTITY WILL also have two

streaming platforms — Disney+

Hotstar and JioCinema, with

dominant market shares in sub-

scription and advertising video-

on-demand segments. The JV

will have over 750 million view-

ers across India and will also

cater to the Indian diaspora

Mukesh Ambani, chairman &

managing director, RIL, said:

"This is a landmark agreement

that heralds a new era in the

Indian entertainment indus-

try. We are very excited at

forming this strategic joint

venture that will help us pool

our extensive resources, cre-

ative prowess, and market

insights to deliver unparalleled

content at affordable prices to

audiences across the nation."

Speaking about the JV,

across the world.



Additionally, there are also fears that fund managers, fearing redemption from investors sitting on profits, may decide to raise cash from the market by selling their holdings. This may lead to a fall in the stock prices.

The market watchdog's message to the fund houses comes at a time when investors have been aggressive on mid and small-cap funds, while large-cap schemes have not seen significant inflows. That is, in 2023, small-cap funds saw net inflows of ₹41,035 crore, while mid-cap funds saw net investments of

RIL, Disney form \$8.5-billion

For Disney, the merger

follows its long struggle

to arrest a user exodus

from its loss-making India

streaming business

Bob Iger, CEO of The Walt

Disney Company, said: "India is

the world's most populous mar-

ket. Reliance has a deep under-

standing of the Indian market

and consumer, and together we

will create one of the country's

lows its long-drawn struggle to

arrest a user exodus from its

loss-making India streaming

business and financial strain

caused by billions of dollars in

Indian cricket rights payments.

Goldman Sachs is acting as

For Disney, the merger fol-

leading media companies."

entertainment giant

₹22,913 crore. On the other hand, large-cap funds witnessed a net selling of ₹2,968 crore, according to data from Amfi. Clearly, investors have taken a liking to the riskier schemes compared with safer large caps.

Even in January, small-cap schemes witnessed inflows of ₹3,257 crore received an inflow of ₹3,257 crore, mid-cap funds saw an inflow of ₹2,061 crore, while large-cap funds saw an inflow of approximately ₹1,287.05 crore.

No wonder, the assets under management (AUM) of these

financial and valuation advisor

and Skadden, Arps, Slate,

Meagher & Flom LLP, Khaitan

& Co and Shardul Amarchand

Mangaldas & Co are acting as

legal counsels to RIL and Via-

com18 on the transaction.

Ernst & Young has provided an

independent valuation to RIL

and Viacom18, while HSBC

India acting as financial advi-

sor has provided a fairness

the lead financial adviser to Dis-

ney on the transaction. Citi is

acting as a financial adviser to

Disney.ClearyGottliebserved as

lead outside counsel to Disney

and Covington & Burling and

AZB served as legal counsels to

Disney on the transaction. BDO

has provided an independent

valuation to Star India.

The Raine Group is acting as

opinion to Viacom 18.

schemes have swelled significantly. In fact, they are closing in fast on AUMs of large-cap funds. For instance, the AUM of largecap funds stood at ₹2.96 trillion in December-end, whereas the AUM of mid-cap and small-cap funds stood at ₹2.82 trillion and ₹2.34 trillion, respectively.

Fund houses like Kotak Mutual Fund have already said that they will not accept fresh money in their small-cap scheme. In a notification dated February 26, Kotak Mahindra **Asset Management Company** said that it has temporarily limited the subscription of units, including switch-ins, into Kotak Small Cap Fund with effect from March 4, 2024.

Fresh lump sum investments, including additional investments or switch-ins, will be capped at ₹2 lakh per PAN (first holder or guardian) per month. SIPs and Systematic Transfer Plan registrations will continue with a monthly limit of ₹25,000 per PAN for various frequencies, the fund house said.

India blocks

INDIA SAID THAT the developing countries urgently needed flexibilities in existing rules. Infant and young industries in developing countries needed support through conducive policies, incentives, subsidies and

India stressed that the

On e-commerce India is sticking to its stand on letting the moratorium on taxation of cross border electronic transmissions lapse by March 31 this year. This is to give back to the country's

"If members want they can decide not to impose the tax to support the sector if

investment

Apart from working sessions on dispute settlement and development, discussions were also started on final outcome documents that will come out at the conclusion of MC-13 on Thursday.

issues relevant to the developing countries should find focus and insisted that new issues should not be considered for ministerial mandates unless past decisions and unfulfilled mandates

On the last day, the MC-13 Working Group meeting on e-commerce will be held along with finalisation Draft Abu Dhabi Ministerial Dec-

they want," an official said.

Law panel readies report on joint polls

Presentations made on measures for simultaneous polls in 2029

APURVA VISHWANATH New Delhi, February 28

FROM MAKING EXPRESS provisions for simultaneous polls, prescribing a common electoral roll to formation of a unity government in case a government falls before the end of its fiveyear tenure, the Law Commission of India has worked out three major Constitutional amendments to set the ball rolling for the 'One Nation, One Election' project in 2029, *The Indian Express* has learnt.

It is learnt that the 22nd Law Commission, headed by former Karnataka High Court Chief Justice Ritu Raj Awasthi, is set to recommend the addition of a new chapter on simultaneous polls in the Constitution.

Currently, Part XV of the Constitution deals with elections. It prescribes the role of the Election Commission and for elections based on adult suffrage among

other aspects. The Commission is likely to recommend insertion of a new chapter, Part XVA, that would make provisions for simultaneous polls. While the law panel has not submitted its report to the government, it has made detailed presentations of its likely recommendations before the high-level committee, headed by former President Ram Nath Kovind, to "examine and make recommendations for holding simultaneous elections" to Lok Sabha, state assemblies, municipalities and panchayats. In September last year, The Indian Express reported that the Commission was mulling framing tentative timelines for simultaneous polls in 2024 and 2029. With 2024 elections round the corner, the recommendations will now be for 2029. The Commission's report is likely to suggest synchronising assembly elections in two stages in the next five years before all states can go to polls simultaneously with the next Lok Sabha elections in 2029. While the term of the Commission comes to an end in August, the govern-

ment Tuesday appointed Justice

Awasthi as one of the three judi-

cial members of the Lokpal. Once he takes over as a Lokpal member, it is learnt that Justice Awasthi is likely to demit office as Chairperson of the law panel.

Sources said, "Elections for states will have to be held collectively in two election cycles over the next five years. The term of some may have to be extended while it may have to be curtailed for others through the Constitutional amendment. Then 2029 can then be the third election cyclewhere the Centre, all states, municipal and panchayat elections can be held together."

One of the key concerns on simultaneous polls was tackling situations where the mandate results in a hung assembly or when a government falls midway when a no-confidence vote is instituted.

Sources said that a second Constitutional amendment would deal with "sustainability of simultaneous polls" which would address these concerns. It is learnt that the Law Commission's prescription is to first attempt setting up an all-party "unity" government if a government falls during its five-year

Himachal turmoil: Cong says evaluating all options

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 28

As the Congress government in Himachal Pradesh faces threat, the party on Wednesday said it was weighing all options and would not hesitate in taking "tough decisions" to ensure that the people's mandate given to it is respected. Six Congress MLAs voted in favour of the BJP candidate in the Rajya Sabha polls in Himachal Pradesh on Tuesday, with sources claiming they are 'disappointed' with the working style of chief minister Sukhvinder Singh Sukhu.

Addressing reporters, Congress general secretary Jairam Ramesh said party president Mallikarjun Kharge has despatched three senior observers — Bhupesh Baghel, Bhupinder Singh Hooda and DK Shivakumar — to Shimla.

AICC in-charge of state Rajeev Shukla is also in the hill state. Ramesh said Congress president Kharge has asked observers and Shukla to speak with all MLAs, including those disgruntled, hear their point of view, and submit a comprehensive report to him soon.

The future course of action will be decided after that, he said. Party sources said the report is likely to be submitted to Kharge by Thursday evening. Ramesh said the Congress chief's priority is to ensure that the party got a decisive mandate which should be protected. "The individuals are not important, the party's interest is supreme. More than the party's interest it is the mandate of the people that was given in December 2022."

Vodafone Idea may raise part of funding through FPO

"INTHE NEAR term, we believe a significant fundraise, if secured by Vodafone Idea, will enable the company to cover upcoming dues, commence its 5G rollout, and improve its operational performance by curtailing the decline in the subscriber base in the near term and start growing the subscriber base again in the coming years," analysts at Nuvama wrote in a report.

Analysts at brokerage house Morgan Stanley observed that any potential

SUBHAS CHANDRA CHOUDHURY

SADHAV

RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

Diligence Certificate(s) submitted to NSE Emerge dated February 16,2024 from Lead Managers to the issue.

from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Material Documents are to be read as below along with the prospectus:

READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM.

MEANING ASCRIBED TO THEM IN THE PROSPECTUS.

large fundraising by the telecom operator will further enhance the possibility of the current market structure prevailing and lower the probability of any imminent consolidation in the industry.

Once the moratorium on regulatory dues expires in FY26, the company will have an obligation to pay the government around ₹28,000 crore. That therefore, makes the fundraise crucial for the company, analysts point out. From FY27, Vodafone Idea will

have a debt obligation of over ₹41,000 crore to the government. Based on the company's current free cash flow position, shrinking market share and absence of a fundraise, Vodafone Idea is expected to have a gap of ₹30,000 crore FY27 onwards.

according to analysts. An FPO is a process through which a listed company can raise money from the public in equity markets. The increased supply of shares tends to result in a fall in the share price.

(This is not a Prospectus Announcement. This is a Corrigendum Advertisement)

Our Company was originally formed and registered as a Private Limited under the Companies Act, 1956 ("Companies Act") in the name and style of "Homa Offshore &

Shipping Company Private Limited", pursuant to a Certificate of Incorporation dated August 16, 1996 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Later on, our

company changed its name from "Homa Offshore & Shipping Company Private Limited" to "Sadhav Shipping Company Private Limited" and Certificate of Incorporation was

issued on March 31, 1999, issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to shareholders

resolution passed at Extra-ordinary General Meeting of our Company held on March 11, 2006 and the name of our Company was changed to "Sadhav Shipping Company

Limited". A fresh Certificate of Incorporation consequent upon Conversion from Private Limited Company to Public Limited Company dated March 21, 2006. Later on, the

name of our Company was changed from "Sadhav Shipping Company Limited" to "Sadhav Shipping Limited" and fresh certificate of incorporation was issued by the

Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra dated March 28, 2006. The Corporate Identification Number of our Company is U35100MH1996PLC101909. For further

Registered Office:521 5th Floor, Loha Bhavan, P. D'mello Road, Masjid (East), Mumbai, Maharashtra, 400009, India

Corporate Office: Unit -618, Laxmi Plaza, Bldg No. 9, New Link Road, Near Laxmi Industrial Estate, Andheri West, Mumbai, Maharashtra, 400053, India

Tel: +91 -22-40003355; Website: www.sadhavshipping.com; E-mail: cs@sadhav.com

Contact Person: Ms. Madhuri Shrigopal Rathi, Company Secretary and Compliance Officer

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 40,18,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF SADHAV SHIPPING LIMITED (THE "COMPANY"

OR "SSL" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 95 PER SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 85 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"),

AGGREGATING TO ₹3817.86 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 2,02,800 EQUITY SHARES OF ₹10 EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 38.16.000

EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.00% AND 26.59%.

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. KAMAL KANT BISWANATH CHOUDHURY, MRS. SADHANA CHOUDHURY, MR. VEDANT KAMALKANT CHOUDHURY AND MR.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED FEBRUARY 16, 2024

On pages 367 and 368 of the prospectus under the chapter MATERIAL CONTRACTS AND DOCUMENTS FOR INSPECTION and under the headings Material contracts and

1. In the list of material contracts: Point number (3) Escrow Agreement dated February 13,2024 between our company, the Lead Manager. Escrow Collection Bank(s) and

the Registrar to the issue and **Addition of point numbers** (8) Addendum dated February 14,2024 to underwriting agreement dated November 9,2023 between our company,

Lead manager and Market Maker. (9) Addendum dated February 14,2024 to Market Making agreement dated November 9,2023 between our company, the Lead Manager

2. In the list of Material Documents: Point number (5), Auditor's report for restated Financials dated February 13,2024 included in this prospectus. Point number (8), Due

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE

THE INFORMATION IN THIS CORRIGENDUM SUPPLEMENTS THE PROSPECTUS AND UPDATES THE INFORMATION IN THE PROSPECTUS SOLELY TO THE EXTENT SET

OUT ABOVE, AS APPLICABLE. THIS CORRIGENDUM DOES NOT REFLECT ALL THE CHANGES THAT MAY HAVE OCCURRED BETWEEN THE DATE OF FILING OF THE

PROSPECTUS AND THE DATE HEREOF. ALL CAPITALISED TERMS USED IN THIS CORRIGENDUM SHALL. UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES. HAVE THE

SADHAV SHIPPING LIMITED subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The

Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.iskadvisors.com, the website of the NSE i.e.

www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www.sadhavshipping.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk.

For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Prospectus, which has been filed with

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued

or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption

and Market Maker. (10) Addendum dated February 14,2024 to Memorandum of Understanding dated October 17, 2023 between our company and the Lead manager.

details, pertaining to the change of name of our Company upon conversion, please refer the chapter "History and Certain Corporate Matters" on page no.151 of Prospectus.

pact

level playing field.

were acted upon.

sovereign right on taxation.

FOR SADHAV SHIPPING LIMITED

Managing Director

February 28, 2024

Jamshedpur

On behalf of the Board of Directors

Mr. Kamal Kant Biswanath Choudhury

A TATA Enterprise

TRF LIMITED

Corporate Identity No. (CIN): L74210JH1962PLC000700 Regd. Office: 11, Station Road, Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007 Tel: +91 657 2345727, Email: comp_sec@trf.co.in. Website: www.trf.co.in POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that TRF Limited ('the Company') is seeking approval of the Members of the Company by way of postal ballot through remote e-voting on the below

SI. No. **Description of Ordinary Resolution**

Material Related Party Transaction(s) with Tata Steel Limited for FY 2024-25 for Operational Matters

The Postal Ballot Notice and Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 read with other applicable laws ('Notice') is available on the website of the Company at https://trf.co.in/investors-relations/stock-exchange-information/, the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 9/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively called 'MCA Circulars'), the Company has sent the postal ballot notice on Wednesday, February 28, 2024 ONLY through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, February 23, 2024 ('Cut-Off Date'). Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope has not been sent to the Members for this Postal Ballot. The Company has completed despatch of the said Notice on Wednesday,

The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facilities to its Members. The remote e-voting period commences on Thursday, February 29, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, March 29, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. Once vote on resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. Please note that communication of assent or dissent of the flembers would only take place through the remote e-voting system. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register. of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-Voting.

To facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made arrangement with its Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ("RTA") for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. The Members who have not registered their e-mail addresses with the Company may register the same with the RTA on or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, March 22, 2024, basis which, the NSDL will provide the Member with copy of the Notice. The process of registration of e-mail address is provided below and is also provided in the "Notes" section to the Notice:

A. One-time registration of e-mail address with RTA for receiving the Notice and casting votes electronically

As part of the Company's green initiative and to facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made special arrangements with its RTA for registration of e-mail addresses. Eligible Members, who have not registered their e-mail addresses with the RTA, are required to provide the same to the RTA on or before 5:00 p.m. (IST) on March 22, 2024

B. Process to be followed for one-time registration of e-mail address (for shares held in physical form or in electronic form) is as follows:

a) Visit the link: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html b) Select the name of the Company from drop-down: TRF Limited

c) Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (if shares held in electronic form) / Folio no. and Certificate no. (if shares held in physical form). Shareholder name, PAN, mobile number and e-mail id

d) System will send One Time Password ('OTP') on mobile number and e-mail

After successful submission of the e-mail address, NSDL will e-mail a copy of this Notice along with the e-Voting user ID and password.

e) Enter OTP received on mobile no, and e-mail id and submit.

For voting process, please refer 'Notes' section of the Postal Ballot Notice. In case of any queries, Members may write to csg-unit@tcplindia.co.in or evoting@nsdl.com

. Registration of e-mail address permanently with Company/Depository Participant (DP): Members are requested to register the e-mail address with their concerned DPs, in respect of electronic holding and with the Company/RTA in respect of physical holding, please visit https://tcplindia.co.in/client-downloads.html to know more about the registration process. Further, those Members who have already

registered their e-mail addresses are requested to ensure that their e-mail ID is valid or in case of change, update the same with their DPs/RTA to enable service of notices/documents/Annual Reports and other communications electronically to their e-mail address in future. n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499

7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager-NSDL at evoting@nsdl.com or contact at NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. K. Singh (Membership No.

FCS-5878) or failing him Mr. Rohit Prakash Prit (Membership No. ACS-33602) of M/s P. K. Singh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman, or to any other person authorised by

him, after scrutiny of the votes cast for the Postal Ballot through remote e-voting, on or before Monday, April 1, 2024. The Scrutinizer's decision on the validity of votes cast will be final. The results of the voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.trf.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and intimated to BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE'), where the equity shares of the Company are listed on or before Monday, April 1, 2024. Additionally, the results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company. TRF Limited

> Prasun Baneriee Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS: 29791

(IATF 16949:2016 Company) Corporate Identity No. L51909KA1981PLC004198

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru, Kamataka - 570 018. Tel - 0821 - 7197500 E-Mail ID: sec@autoaxle.com Website : www.autoaxle.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Company is seeking approval of its Members by way of Special resolution for Approval of Appointment of Ms. Bijal Tushar Ajinkya (DIN: 01976832) as an Independent Director.

Pursuant to the provisions of section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules of the Companies (Management and Administration Rules. 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') approval of the members of the Company was sought by means of Postal Ballot through remote e-voting.

In compliance with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 and 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the MCA (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars'), and the Listing Regulations and other applicable laws and regulations, the Company has sent the postal ballot notice on Tuesday, 27th February, 2024 only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company Depositories and whose names are recorded in the register of members of the Company or in the register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, 23" February 2024 ("Cut-off Date").

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide remote e-voting facility to its members. The posta ballot through remote e-voting commences from 9:00 AM (IST) on Wednesday, 28th February 2024 and will end at 5:00 PM (IST) on Saturday, 30" March 2024. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the Members on Friday, 23th February 2024. The communication of the assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system. Only those members whose names are recorded in the register of Members of the Company or in the register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The members whose e-mail address not registered with the Company/Depositories, to receive postal ballot notice may register on or before 5:00 P.M on Monday, 11" March 2024 by completing the process for registration of e-mail address as under

In case shares are held in physical mode please provide duly filled Form ISR-1 along with self-attested copies of PAN Card and AADHAR card to our Registrar and the Share Transfer Agent - Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore – 560003 Tel: +91-80-23460815-818, Contact Person: Mr. Harish. K Mobile No: 9620213528. Form ISR-1 can be downloaded from https://autoaxle.com/important_Investor_Updates.aspx_under_Common and Simplified Norms for Investor Service.

 In terms of SEBI circular dated 9th December 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

For details relating to e-voting please refer to the postal ballot notice. The postal ballot notice is placed on the website of the Company (www.autoaxle.com) as well as the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager at evoting@nsdl.com.

The Board of Directors (the "Board") had appointed Mrs. Pracheta M, (FCS) No. 9323, C.P. No. 9838), Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of the postal ballot will be announced by such authorized person of the Company on or before Monday, 1" April 2024 and will be displayed at the Company's registered office. The said results along with Scrutinizer Report would be intimated to Stock Exchanges i.e BSE and NSE and will also be uploaded on the Company's website (www.autoaxle.com.) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com).

For Automotive Axles Limited

Debadas Panda

Company Secretary

KALYANI

Date: 27" February, 2024

Place : Mysuru

MERITOR



Place: Mumbai

ROC.

Date: February 28, 2024

Pune

<mark>झारखंड बजट सत्र</mark> : वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर ने कहा, धनी राज्य के गरीब लोगों का रहन-सहन स्तरीय बनाने की चुनौती

सरकार ने बजट की उपलब्धियां

गिनायीं, विपक्ष का वॉक आउट रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सामान्य बजट

2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि विपक्ष कुछ भी कहे यह पीपुल्स बजट है, जिसे विशेष तौर पर गरीबों पर केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने जैसे ही सामान्य बजट की उपलब्धि बतानी शुरू की, तो विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया।

उन्होंने कहा कि झारखंड धनी है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं। हर सरकार की चुनौती होती है कि धनी राज्य के गरीब लोगों का रहन-सहन कैसे स्तरीय बनाएं। विपक्ष ने यह नहीं सोचा, लेकिन हमने इसे करने की कोशिश की। हमारी सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत 24 लाख लोगों को पेंशन दे रही थी, लेकिन 50 साल तक की आयु को शामिल करने के बाद यह आंकड़ा 48 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 1.28 हजार करोड़ का बजट लेकर आए हैं। बजट का आंकड़ा बढ़ने का कारण यही है कि इससे प्रति व्यक्ति आय, निवेश सभी बढेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार ने चालू बजट का केवल 56 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाई है। उन्हें सही जानकारी नहीं है। अभी तक 70 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है। वित्तीय वर्ष के खत्म होते ही यह आंकडा 91-

92 प्रतिशत पहुंच जाएगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि भाजपा नीत सरकार केवल भ्रामक प्रचार-प्रसार कर जनता का पैसा खर्च कर रही है।

विधानसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान मौजूद वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता व अन्य। • हिन्दुस्तान

में अब पेंशनधारियों

बजट में सरकार का सभी वर्गों पर जोर: विनोद

विनोद सिंह ने बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर सभी वर्गों पर है। सरकार ने शुरुआत में केसीसी लोन देने की जो पहल की थी, उसमें सुस्ती नहीं आनी चाहिए।

विपक्ष साथ दे तो पेंशन की राशि 3000 रुपए कर देंगे : सुदिव्य

सामान्य बजट पर चर्चा शुरू होते ही झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार में पांच सितारा होटलों में योजना बनी, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा। तब की सरकार ने ऋण

लेकर सरकार चलाने का काम किया। वहीं, हमारी सरकार ने जनता को ध्यान में रखकर योजना बनाने की दिशा में काम किया है। आज आरबीआई के सिंकिंग फंड में सरकार के 1600 करोड रुपए जमा हैं। विधायक ने कहा कि पूर्व

सीएम हेमंत सोरेन केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया की मांग करते रहे हैं। विपक्ष अगर इस बकाए राशि को लौटाने में सरकार का सहयोग करे तो हम पेंशन की राशि को 1000 से बढाकर 3000 रुपए कर देंगे।

नेता प्रतिपक्ष सदन में माफी मांगें: मिथिलेश

रांची। विस में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष द्वारा मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर असंसदीय शब्दों के प्रयोग पर सदन में स्पीकर ने सभी विधायकों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के शब्दों को स्पंज कर दिया गया है। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन में मांग रखी कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी को मार्फी मांगनी चाहिए।

रांची। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को संतुलित और झारखंड की जनता की अपेक्षा वाला बजट बताया। उन्होंने सरकार से राज्य के महापुरुषों के नाम पर सरकारी योजना को शुरू करने की मांग की।

जनता की अपेक्षा वाला बजट : राजेश

बताएं कि बिजली की ऐसी हालत किसने की: प्रदीप

प्रदीप यादव ने सुदेश महतो के बजट भाषण पर दिए बयान पर कहा कि 18 वर्ष तक सत्ता में रहे तब यह दर्द कहां था। अगर महिलाओं को पेंशन देने से उन्हें पीड़ा है तो वे खुलकर क्यों नहीं बोलते कि सरकार पेंशन देना बंद करे। प्रदीप यादव ने पूछा कि बिजली को ऐसी हालत तक पहुंचाने का काम किसने किया। बांग्लादेश को बिजली देकर उनकी सरकार ने अरबों रुपए कमाने का काम किया।

राज्य के बजट में केवल आंकड़ों का खेल: सुदेश बजट में 20 लाख आवास

देने का जिक्र नहीं : केदार

भाजपा विधायक केदार हाजरा ने बजट

को किसान विरोधी बताया। कहा, सीएम

जगह-जगह घूम कर 20 लाख आवास

लाख आवास देने का बजट में कोई जिक्र

नहीं है। झारखंड मोटे अनाज में आगे है,

देने की बात करते रहे हैं, जबकि 20

लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान

नहीं किया गया है। सरकार ग्रामीण

सडक पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके

जवाब में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर

आलम ने कहा, रघुवर दास सरकार में विधायकों को नई सड़क नहीं मिली थी।

छोटे व्यापारियों के लिए

नई घोषणा नहीं : नीरा

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा,

बजट में छोटे व्यापारियों के लिए कोई

नई घोषणा नहीं की गई। सभी वर्ग के

लोगों का बजट पर निगाहें टिकी थीं,

आवास योजना में बिचौलिए हावी हो

गए हैं, लेकिन सरकार को इसकी

मिथिलेश ठाकुर ने कहा, राज्य में

से 8.5 लाख लोगों के लिए पीएम

आवास योजना की बात करते तो

जरूरत ही नहीं पडती।

शायद हमें इस योजना को लाने की

भाजपा के 12 सांसद हैं। अगर वे केंद्र

चिंता नहीं है। इसके जवाब में

लेकिन सभी निराश हुए। अबुआ

रांची। सुदेश महतो ने वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट को केवल आंकडों का खेलवाला बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने 50 साल से ऊपर की महिलाओं को डीबीटी से पेंशन देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कुछ तो शोध किया होगा कि आखिर क्यों 50 साल से ऊपर की महिलाओं को पेंशन देने की जरूरत पड़ी। जरूरी होता कि सरकार इस प्लान पर काम करती कि 50 से 60 साल तक पेंशन की जरूरत नहीं पड़े। सरकार इस पर काम करती कि

महिलाओं की शारीरिक कमियां दूर हो। उन्होंने कहा, हर साल 5 लाख यानी कुल 25 लाख रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार ने दो साल पहले नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। लेकिन रोजगार 10,000 भी पार नहीं कर पाया। 2.39 लाख पद अभी भी खाली हैं।

सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षकों के नहीं होने से पढ़ाई से वंचित हैं। 125 युनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा सरकार कर चुकी है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों को 6 से 7 घंटे ही औसत बिजली मिलती है। सरकार गरीब आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात करती है, लेकिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगे शिविर में इससे संबंधित कोई आवेदन ही नहीं लिया गया।

ढुलू ने पूर्व एसएसपी पर सदन में लगाए आरोप

रांची। विस में बुधवार को बाधमारा विधायक ढुलू महतो ने धनबाद के पूर्व एसएसपी व वर्तमान में दुमका डीआईजी संजीव सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाया। सदन के भीतर उन्होंने कहा कि धनबाद के पूर्व एसपी संजीव कुमार विशुद्ध रूप से क्रिमिनल हैं। जेल में उन्होंने हत्या करवाई, अवैध खनन कराया। उनपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके हटते ही आपराधिक घटना रुक गई। दुलू महतो ने कहा कि धनबाद में एसएसपी के बदलते ही पूरा माहौल बदल गया।

सियासत 🏭 S



रांची एयरपोर्ट पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को प्रतीक चिह्न देते मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और साथ में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। • हिन्दुस्तान

राज्यपालकोआजसूपार्टी ने सौंपाज्ञापन

रांची। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, विकास, संवैधानिक अधिकार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई को लेकर बुधवार को आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अल्पसंख्यक समुदाय के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक लंबोदर महतो, महासचिव नजरुल हसन हाशमी, महासचिव खालिद ख़लील आदि शामिल थे।


पशुपालन विभाग की नियमावली में संशोधन शीघ्र

रांची। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विभागीय प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि पशुपालन विभाग की नियमावली में जल्द ही संशोधन किया जाएगा। इसके तहत पशुपालन विभाग के पुनर्गठन में निदेशक प्रमुख का पद समवर्गीय, प्रोन्नती का पांच पद सोपन एवं पशुपालन आयुक्त, गैरसमवर्गीय, भारतीय प्रशासनिक सेवा से प्रावधान कर नियमावली में संसोधन किया जाएगा।

प्रतिनिधियों को मिलेगा कृषि गणना का प्रशिक्षण

रांची। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से 11वीं कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण के डाटा को अंतिम रूप देने के साथ ही द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण की बुधवार को शुरुआत की गई। भूमि सुधार विभाग द्वारा दो मार्च तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हरदाग के एक होटल में किया जा रहा है।

सोशल मीडिया से





आरक्षण विधेयक का मुद्दा सदन में उटा रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को कार्यवाही

शुरू होते ही कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि राज्यपाल की ओर से आरक्षण विधेयक को लौटाए जाने का वह विरोध करते हैं।

A TATA Enterprise टीआरएफ लिमिटेड

कॉपॅरिट आइडेंटिटी नंबर (CIN): L74210JH1962PLC000700 पंजीकृत कार्यालयः 11, स्टेशन रोड, बर्मामाइंस, जमशेदपुर, झारखंड - 831007 फोन: +91-657 2345727 ईमेल: comp_sec@trf.co.in, वेबसाईट: www.trf.co.in

पोस्टल बैलेट की सूचना एवं ई-वोटिंग संबंधी जानकारी एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि टीआरएफ लिमिटेड ('कंपनी') नीचे दिए गए प्रस्ताव पर रिमोट

ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेटके तरीके से कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांग रही है:

क्रम संख्या	सामान्य रिजॉल्यूशन के प्रकार
1	परिचालन संबंधी मामलों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के साथ मेटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन
क्ंपूनी अधिुनि	यम्, 2013 की धारा 102 सहपठित अन्य लागू कानूनों ('नोटिस') के अनुसार पोस्टल बैलेट

नोटिस और विवरण, कंपनी की वेबसाइट https://trf.co.in/investors-relations/stock-exchange-information/, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड के लिए www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए -www.nseindia.com पर उपलब्ध है, जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020

17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, 22/2020 दिनांक जून 15, 2020, 33/2020 दिनांक सितंबर 28, 2020, 39/2020 दिनांक दिसंबर 31, 2020, 10/2021 दिनांक जून 23, 2021, 20/2021 दिनांक दिसंबर 8, 2021, 3/2022 दिनांक मई 5, 2022, 11/2022 दिनांक दिसंबर 28, 2022 एवं 9/2023 दिनांक सितंबर 25, 2023, के अनुपालन में कॉपरिट्र मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिप्त्र' कहा जाता है), कंपूनी ने बुधवार, फरवरी 28, 2024 को केवल डुलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को पोस्टल बैलर्ट नोटिस भेजा है, जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में शुक्रवार, फुरवरी 23, 2024 ('कट-ऑफ डेट') तक दर्ज हैं। तदनुसार, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ नोटिस की भौतिक प्रति इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेजी गई है। कंपनी ने बुधवार, फरवरी 28, 2024 को उक्त नोटिस को भेजने का काम पूरा कर लिया है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अविध गुरुवार, फरवरी 29, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और शुक्रवार, मार्च 29, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा इ-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट्-ऑफ डेट के अनुसार कंपनी की चुकती इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य इसे बाद में बदल नहीं संकेंगे। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ डेट पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे

सदस्यों को यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने की सुविधा के लिए, कंपनी ने एमसीए परिपत्रों के अनुसार ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') की सेवाएं ली हैं। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते क्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे इसे शुक्रवार, मार्च 22, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) या उससे पहले आरटीए के साथ पंजीकृत कर सकते हैं, जिसके आधार पर एनएसडीएल सदस्य को नोटिस की प्रति प्रदान करेंगे। ई-मेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है और नोटिस के 'नोटस' अनुभाग में भी प्रदान की गई है

अ. नोटिस प्राप्त करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए आरटीए के साथ ई-मेल पते का एक बार

कंपनी की हरित पहल के हिस्से के रूप में और सदस्यों को यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने की सुविधा के लिए, कंपनी ने ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए अपने आरटीए के साथ विशेष व्यवस्था की है। पात्र सदस्य, जिन्होंने आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें मार्च 22, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) या उससे पहले आरटीए को इसे प्रदान करना आवश्यक है।

ब. ई-मेल पते के एक बार के पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए) इस प्रकार है

क) लिंक पर जाएं: https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html ख) ड्रॉप-डाउन से कंपनी का नाम चुनें टीआरएफ लिमिटेड

ग) संबंधित क्षेत्रों में विवरण दर्ज करें जैसे डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी (यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) / फोलियो नंबर और प्रमाणपत्र नं. (यदि शैयर भौतिक रूप में रखे गए हैं), शेयरधारक का नाम.

पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी

घ) सिस्टम मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर वन टाइम पासवर्ड ('ओटीपी') भेजेगा ड0) मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।

ई-मेल पता सफलतापूर्वक दर्ज करने के बाद, एनएसडीएल ई-वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ इस नोटिस की एक प्रति ई-मेल करेगा।

मतदान प्रक्रिया के लिए, कृपया पोस्टल बैलेट नोटिस का 'नोट्स' अनुभाग देखें। किसी भी पूछताछ के संबंध

में, सदस्य csg-unit@tcplindia.co.in या evoting@nsdl.com पर लिख सकते हैं।

स. कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ स्थायी रूप से ई-मेल पते का पंजीकरणः सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के संबंध में अपने संबंधित डीपी के साथ और भौतिक होल्डिंग के सबंध में कंपनी / आरटीए के साथ ई—मेल पता पंजीकृत करें। पंजीकरण प्रक्रिया के बारे मे

अधिक जानने के लिए कृपया https://tcplindia.co.in/client-downloads.html पर जाएँ इसके अलावा, जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पहले ही पंजीकृत कर लिया है, उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी ई-मेल आईडी वैध है या किसी बदलाव के मामले में, इसे अपने डीपी / आरटीए के साथ अपडेट करें ताकि नोटिस / दस्तावेज / वार्षिक रिपोर्ट और भविष्य में अन्य

संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके ई-मेल पते पर पहुँच सके। किसी भी पूछताछ के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड़ अनुमाग पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई—वॉटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नबर: 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सीनियर मैनेजर-एनएसडीएल को <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध भेज सकते हैं या एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंगु, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,

मुंबई 400013 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री पी.के. सिंह (सदस्यता संख्या एफसीएस-5878) या उनके स्थान पर श्री रोहित प्रकाश प्रीट (सदस्यता संख्या एसीएस-33602) को मेसर्स पी.के. सिंह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट प्रक्रिया की

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के लिए डाले गए वोटों की जांच के बाद सोमवार, अप्रैल 1, 2024 को या उससे पहले संवीक्षक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देंगे। डाले गए वोटों की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। पोस्टल बैलैट द्वारा किए गए मतदान के नतीजे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.trf.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई) को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सोमवार, अप्रैल 1, 2024 को या उससे पहले सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाए जाएंगे।

टीआरएफ लिमिटेड हस्ताक्षरित / -प्रसून बनर्जी कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी PR 320718 Jharkhand Bijlee Vitran Nigam Ltd(23-24)#D सदस्यता संख्या एसीएसः 29791

अबुआ आवास में ग्रामसभा सेअनुमोदित सूची को प्राथमिकता की अनुमोदित या प्राथमिक सूची को कराना होगा।

ध्यानाकर्षण

-रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि ग्रामसभा की ओर से अबुआ आवास के लाभुकों

Name of Work

Estimated cost of Work (In INR)

Initial Bid Security in the shape of

Last date & Time for online biddin

and other documents in online form

Date & time for opening of Tender Bid

12 Name & Address of inviting Tender

13 | Contact no. of Procurement officer

14 Helpline number of e-Procurement cell

PR 320772 Water Resource (23-24) D

Sr NIT/Tender notice

No. and description

of item

514/PR/JBVNL/2023-

ISI Marked ACSR

Dog Conductor

ISI Marked ACSR

Rabbit Conductor

ISI Marked LT XLPE

AB Cable sizes

3Cx50+1x35+1x16

ISI Marked 11 kV

XLPE UG Cable

300sqmm

ISI Marked 33 kV

XLPE UG Cable

400sqmm

(iii) Tender fee is non-refundable.

0651-2400178

5 | 518/PR/JBVNL/2023-

4 | 517/PR/JBVNL/2023-

3 |516/PR/JBVNL/2023-

2 |515/PR/JBVNL/2023-

के हदतक स्वतः संशोधित समझे जायेगें ।

Tender fee

Rs 10000/-

GST

(iv) Pre-bid meeting shall be held on 11.03.2024 at Nigam Headquarter.

(ii) Tender fee & EMD must be paid through online mode.

Date of publication of tender on website

Last date & time for upload of Bid security

Initial Bid Security (In Rs.)

Cost of Bidding Document

Time of completion

Start Date of Bidding

ही मान्यता दी जाएगी।

गाइडलाइन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। एक-एक पंचायत से तीन-तीन हजार तक लोगों के आवेदन मिले हैं। अंतिम सूची को ग्रामसभा से पास

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

MINOR IRRIGATION DIVISION, SERAIKELLA

e-Procurement Notice

e-Tender Reference No - 44/WRD/MID/SERAIKELLA/F2/2023-24.

Renovation Of Murli Bandh under Ichagarh

Rs. 1,43,000.00 (Rupees One Lakh Forty Three

Rs. 10000.00 (Rupees Ten Thousand) only. To be

27.03.2024 up to 3.00 P.M

Through e-Tender Portal www.jharkhandtender.gov.in (As per SOP Issued

by Information Technology & e-Governance

Department, Govt of Jharkhand vide letter no-120

Dated 03.10.2023)

28.03.2024 at 4.00 P.M in the office of Executive

Engineer, Minor Irrigation Division Seraikella

Executive Engineer

Minor Irrigation Division, Seraikella

end date

21/03/2024

upto 18:00

21/03/2024

upto 18:00

upto 18:00

Hrs.

date and

time

22/03/2024

at 18:00

Hrs.

22/03/2024

at 18:00

Hrs.

22/03/2024

at 18:00

Hrs.

22/03/2024

at 18:00

Hrs.

at 18: 00

Hrs.

Sd/-

General Manager (S&P)

JBVNL

Executive Engineer, Minor Irrigation Division

Date of | Document | Online Bid | Online Bid | Technical

publication | download | Submission | Submission | bid opening

from 13:20

Hrs.

from 13:20

from 13:20

29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 21/03/2024 22/03/2024

Hrs.

To be deposited online as per S.O.P uploaded.

Rs. 71,42,100.00 (Rupees Seventy one Lakh Forty

Block, Dist- Seraikella-Kharsawan.

Two Thousand One Hundred only).

paid online as per S.O.P uploaded.

Thousand only)

11 (Eleven) Months.

Seraikella.

9801286765

9801286765

Cost of Bidding Document के प्रावधान JAP-IT विभाग के ज्ञापांक 120 दिनांक 03.10.2023 के प्रावधान

Note :- Bid Document के Initial Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD) एवं Tender Fee

JHARKHAND BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED

(CIN: U40108JH2013SGC001702)

Regd. Office:- Engineering Building, HEC, Dhurwa, Ranchi-834004.

fax # 0651-2400483 e-mail: cesp.jseb@rediffmail.com/gmsp.jbvnl@rediffmail.com

Notice inviting tender for procurement through rate contract

of tender | start date | start date |

29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 21/03/2024

from 13:00 | from 13:10 | from 13:20 | upto 18:00

29/02/2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 21/03/2024

from 13:00 from 13:10 from 13:20 upto 18:00

& time

29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024

Hrs.

29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024

Hrs.

from 13:00 from 13:10

from 13:00 from 13:10

from 13:00 | from 13:10 |

Hrs.

स्वहित एवं राष्ट्र हित में ऊर्जा बचावें। कृपया अपनी

शिकयतों को टॉल फी नं० 1800 345 6570 पर दर्जकरायें।

NOTE:- (I) Only e-tenders will be accepted. Further details can be seen on website http:jharkhand

tenders.gov.in and may be contacted on Mobile No. 9431135523/ 9430348596, NIC helpline No.

manufacturers/ authorized supplier only for supply of following Material through rate contract :-

on website

21.03.2024 from 2.00 P.M

21.03.2024 from 2.00 P.M

27.03.2024 up to 3.00 P.M

कुछ जगहों से गड़बड़ी की शिकायत मिली है। सरकार इसकी जांच करवा रही है। रिपोर्ट पर सरकार करवाई भी करेगी। उन्होंने यह जवाब आजस् विधायक लंबोदर महतो की ओर से

लाए गए ध्यानाकर्षण पर दिया। विधायक ने योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। सीएम बनने के बाद चंपाई सोरेन ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा विभिन्न अवसरों पर दिया था।

दक्षिण पूर्व रेलवे - निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (टीआरएस), राउरकेला, दक्षिण पूर्व रेलवे निम्नलिखित कार्य के लिए जीईएम बोली आमंत्रित करते हैं। इस निविदा के लिए मैन्अल प्रस्ताव की अनुमति नहीं है और प्राप्त ऐसे किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा। <u>जीईएम</u> बोली संख्या: जीईएम/2024/बी/4680963 दिनांक: 27.02.2024। कार्य का विवरण: सेवाओं के लिए कस्टम बोली- ईएलएस/राउरकेला वे इलेक्टिक लोकोमोटिव की सफाई। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 66,31,960। बयाना राशि: ₹ 1,32,640। बोली बंद होने की तारीख एवं समय: 26.03.2024 को सुबह 11.00 बजे। वेबसाइट का विवरण: https://www.gem.gov.in/ जीईएम स्खराम समाज के पहले युवा

Notice No.-415/UCADA/B200 DBU/2024

Date of Downloading of Tender:

Start date for submission of bid:

Opening of Technical Bid:

Last Date for submission of Tender:

रांची, बोकारो, हिटी। खूंटी जिला बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार-

में छऊ नृत्य कलाकार परीक्षित

सुखराम और परीक्षित को नई दिल्ली में आयोजि समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सम्मानित करेंगी। अकादमी के सदस्य नंदलाल नायक ने बताया कि बोली का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। | हैं , जिन्हें यह पुरस्कार मिला है।

खूंटी के सुखराम व बोकारो के परीक्षित को मिला सम्मान

के कुद्दा निवासी मुंडारी लोक नृत्य कलाकार सुखराम पहान को उस्ताद

> 2023 से नवाजा गया है। यह सम्मान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान की गई है। वहीं, बोकारो के सुदूर गांव खेड़ाबेड़ा महतो को भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा

28/02/2024 Time: 1500 hrs

28/02/2024 Time: 1500 hrs

06/03/2024 Time: 1500 hrs

06/03/2024 Time: 1600 hrs

CEO, UCADA



पद्मश्री डॉ रामदयाल मुंडा की अगुवाई में विश्व आदिवासी दिवस पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भी इन्होंने प्रस्तुति दी थी।

छऊ नृत्य कलाकार परीक्षित महतो ने बताया कि प्रारंभ से उन्हें इस नृत्य के प्रति रुझान था। गुरु धनंजय महतो ने उन्हें छऊ नृत्य की कला से अवगत कराया था। परीक्षित ने बताया कि वे छऊ नृत्य का देशभर में प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं,ताकि इसे संरक्षित किया जा सके।

'पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद Dated: 28 Feb, 2024 the aircraft manufacturer Approved "Aircraft Spares Vendor" in India to supply of "DBU-5010E" including installation and certification by the appropriately licensed AME on SKA B200, MSN-BB 1914, VT-UAB aircraft of Govt. of Uttarakhand equipped with Proline-21 निकाय चुनाव'

रांची। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न पर सदन में जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

किया गया है।

आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। न्यायालय को सरकार की ओर से छह माह नहीं चनाव कराने की बात कही गई थी। सरकार ससमय चुनाव कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह जवाब भाजपा विधायक नीलकंठ के ध्यानाकर्षण पर दिया। वरिष्ठ भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी इस मुद्दे पर सवाल किए। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने नगर निकाय व नगर पंचायत चुनाव में हो रही देरी का मुद्दा सदन में उठाया।

JBVNL invites online e-tender from reputed, technically experienced and financially sound

राष्ट्रीय जलविज्ञान सस्थान, रूड़को

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की सोसायटी) जलविज्ञान भवन, रूड़की-247667, उत्तराखंड

संख्याः 5 (XIV)/ 2023-24/ NIH/Pur-01 दिनांकः 27.02.2024 राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की "हिंदी में तकनीकी पुस्तक

UTTARAKHAND CIVIL AVIATION DEVELOPMENT AUTHORITY

Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, Govt. of Uttarakhand inviting e-Tender from

avionics system. This may also be seen on Uttarakhand procurement website www.uktenders.gov.in. The detailed tender schedule is as follows:

Last Date for submission of documents physically at UCADA: 06/03/2024 Time: 1600 hrs

For more details, please visit www.uktenders.gov.in/ Uttarakhand Civil Aviation

Development Authority, Doon Helidrome, Mussoorie bypass P.O.- Kulhan, Dehradun,

Opening of Financial Bid will be intimated by e-mail to the technically qualified bidders.

TENDER NOTICE

लेखन पुरस्कार योजना" के अंतर्गत वर्ष 2023 के दौरान प्रकाशित मौलिक तथा अनूदित पुस्तकों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करता है उक्त पुरस्कार योजना की पात्रता सम्बन्धी शर्तो एवं अन्य विवरए की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की अधिकारिक

वेबसाइट www.nihroorkee.gov.in देखें। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

JHARKHAND POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED (An undertaking of Jharkhand Govt.)
Line Tank Road, Ranchi-834001 ■ 0651-2214712, Fax:0651-2202400 (CIN: U45200JH2002SGC012154) Ref No : स्थापना-391/19 Recruitment Notice Date: 23-02-2024 Applications are invited for the post of Accounts Assistant(Cashier)

Police Housing Corporation Ltd., Line Tank Road, Old Police Line, Ranchi for categories mentioned below:-Total Vacancy | ST | SC Name of Post Accounts Assistant (Cashier) 1 Accounts Assistant (Taxation) 1

Accounts Assistant (Taxation) on contract basis at Jharkhand

Total 1 1 Interested candidates may submit their application in prescribed format with self attested photocopies of relevant testimonials and recent Passport Size Photographs to the "Chairman-cum-Managing Director, Jharkhand Police Housing Corporation Limited, Line Tank Road, Old Police Line, Ranchi-834001" latest by 04-03-2024 by registered/speed post. The detailed information as to qualification, experience etc. can be viewed on official website www.iphcl. jhpolice.gov.in at career portal. Sd/- Manager (Personnel)

ई-रिक्शा परिमट का

हल निकालेंगेः आलम रांची। कांग्रेस विधायक राजेश

कच्छप ने ई रिक्शा का मामला उठाया। कहा जब बैटरी, इथनाल ईंधन चलित यान के लिए परिमट आवश्यक नहीं है, तो परेशान क्यों किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने गाड़ी दी है। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा ये सही है कि परमिट की जरूरत नहीं है। रूट तय करना नगर निगम के अधीन आता है। ये नगर विकास विभाग का मामला है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर

आलम ने कहा मामले को देखेंगे।

दोनों विभाग मिलकर स्थाई हल

निकालने का प्रयास करेंगे।

जमशेदपुर

फरवरी 28, 2024